



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 23.06.2022

1-थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा मन्दिर में तोड़फोड़ व चोरी करने वाला अभियुक्त व मन्दिर से चोरी किया गया सामान खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 23.06.2022 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा मन्दिर में तोड़फोड़ व चोरी करने वाला अभियुक्त 1.आकाश पुत्र कमल निवासी चमन कॉलोनी, न्यू सैण्ट्रल बैंक के पास, सियानी गेट, जिला गाजियाबाद तथा मन्दिर से चोरी किया गया सामान खरीदने वाला कबाड़ी 2.समीर पुत्र तैय्यव निवासी ग्राम खिवई, थाना सरूरपुर, जिला मेरठ वर्तमान पता बहरामपुर, 25 फुटा रोड, गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के डायवर्जन कट एफएनजी रोड़ से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0सं0 214/2022 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित मन्दिर से चोरी के तीन घन्टे पीतल के, दो नाग देवता तांबे के व दो कलश पीतल के बरामद हुए है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.आकाश पुत्र कमल निवासी चमन कॉलोनी, न्यू सैण्ट्रल बैंक के पास, सियानी गेट, जिला गाजियाबाद।
2. समीर पुत्र तैय्यव निवासी ग्राम खिवई, थाना सरूरपुर, जिला मेरठ वर्तमान पता बहरामपुर, 25 फुटा रोड, गाजियाबाद। (कबाड़ी)

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1-मु0अ0सं0 214/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।
- 2-मु0अ0सं0 67/2022 धारा 153ए/295ए भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।
- 3-मु0अ0सं0 1751/2018 धारा 380/457 भादवि थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद।
- 4-मु0अ0सं0 1738/2021 धारा 411/414/420 भादवि थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:

तीन घन्टे पीतल के, दो नाग देवता तांबे के व दो कलश पीतल के



2-थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा डीएलएफ मॉल की पार्किंग से लैपटॉप व नगदी चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ लैपटॉप, 30,000 रूपए नगद व मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 23.06.2022 को थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा डीएलएफ मॉल की पार्किंग से लैपटॉप व नगदी चोरी करने वाला 01 चोर मुरसलीन पुत्र रज्जाक निवासी सादिक की पुलिया के पास, कैला भट्टा, थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के सेक्टर-18, झुग्गी झोपड़ी शौचालय, नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गए 02 बैग, 01 लैनेवो थिंक पैड लैपटॉप, 01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी व 30,000 रूपए नगद बरामद किए गए हैं।

अभियुक्त का विवरण:

मुरसलीन पुत्र रज्जाक निवासी सादिक की पुलिया के पास, कैला भट्टा, थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 250/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

1.01 लैनेवो थिंक पैड लैपटॉप

2.01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी

3.30,000 रूपए नगद



#थाना फेस-2 पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आबकारी अधिनियम के 119 मुकदमों से सम्बन्धित कुल 4768 लीटर देशी/अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 20 लाख रूपये) को नष्ट कर जमीन में दबाया गया।

दिनांक- 23.06.2022 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ACJM-3 के आदेशानुसार सहायक पुलिस आयुक्त-1, सेन्ट्रल नोएडा व थानाध्यक्ष फेस-2 की उपस्थिति में वर्ष 2017 से सम्बन्धित आबकारी अधिनियम के कुल 30 अभियोगो, वर्ष 2018 से सम्बन्धित आबकारी अधिनियम के कुल 34 अभियोगो, वर्ष 2019 से सम्बन्धित आबकारी अधिनियम के कुल 27 अभियोगो, वर्ष 2020 से सम्बन्धित आबकारी अधिनियम के कुल 28 अभियोगो, कुल 119 अभियोगो से सम्बन्धित कुल 4768 लीटर देशी/अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 20 लाख रूपये) को दिये गये आदेश क्रम में नियमानुसार जे.सी.बी मंगाकर गड्ढा खुदवाने के उपरान्त नष्ट किया गया है।



#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार सुरक्षा/शांति व्यवस्था के दृष्टिगत ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार द्वारा डीसीपी ग्रेटर नोएडा, एसीपी-3 ग्रेटर नोएडा व पुलिस बल के साथ थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया और स्थानीय लोगों के साथ वार्ता की गई।

सभी डीसीपी, एडीसीपी व अन्य पुलिस अधिकारीगण द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालते हुए धार्मिक गुरुओं के साथ संवाद किया गया।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा/शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक 23.06.2022 को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लव कुमार द्वारा डीसीपी ग्रेटर नोएडा, एसीपी-3 ग्रेटर नोएडा व थाना प्रभारी दनकौर और पुलिस बल के साथ थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा दनकौर व आसपास के मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान उनके द्वारा स्थानीय लोगों, व्यापारियों और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ संवाद किया गया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। लोगों को अफवाहों/भ्रामक खबरों से बचने, उपद्रवियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने व आपसी सामंजस्य बनाए रखने, साथ ही युवाओं को किसी के बहकावे में न आने, अपनी समस्या संबंधित अधिकारी के समक्ष रखने व शांति व्यवस्था बनाने रखने हेतु समझाया गया। उनके द्वारा मुख्य बाजारों/धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, सभी संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग करने व स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम हेतु प्रभावी पेट्रोलिंग कराने के लिए थाना प्रभारी दनकौर को निर्देशित किया गया।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के सभी जोन में संबंधित डीसीपी, एडीसीपी के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा कमिश्नर संवेदनशील स्थानों व धार्मिक स्थलों के आसपास पलैग मार्च किया जा रहा है। सभी पुलिस अधिकारीगण द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के धार्मिक गुरुओं के साथ मीटिंग करते हुए उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने हेतु कहा गया है। सभी मुख्य बाजारों/धार्मिक स्थलों के आसपास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की ड्यूटी लगाने, पुलिसकर्मियों को दंगा निरोधक उपकरणों के साथ ड्यूटी पर उपस्थित रहने और संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस द्वारा ड्रोन/सीसीटीवी कैमरों की सहायता से कड़ी नजर रखी जा रही है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतर्क निगरानी बनी हुई है यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह/भ्रामक खबर फैलाने का काम करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। लोगों से भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या भ्रामक खबर फैलाने वाले व्यक्ति की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर सेल को देने हेतु बताया गया है।

